



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939

No. 139]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.नि. 229(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (पुस्तकालय एवं सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1994 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग-II पद) भर्ती नियम, 1967 में जहाँ तक उसका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक और सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (पुस्तकालय तथा सूचना सहायक और सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.. पुस्तकालय तथा सूचना सहायक	26 *(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अनुसूचिवीय	स्तर 6	लागू नहीं होता	"30 वर्ष से अधिक नहीं" टिप्पण 1: (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी

<p>अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री;</p> <p>(ii) केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन किसी पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव</p> <p>वांछनीय</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2. चयन के किसी स्तर पर यदि सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों, से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।</p>			<p>या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त के आधार पर भरी जा सकेंगी:</p> <p>(क) (i) मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; या</p> <p>(iii) मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्तियों के लिए अवधारित अर्हता और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण: (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ब' विभागीय पुष्टि समिति :</p> <ol style="list-style-type: none"> अपर महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — अध्यक्ष संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — सदस्य निदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पुस्तकालय तथा सूचना अधिकारी	10*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसूचिवीय	स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: ऐसे पुस्तकालय और सूचना सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 के इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) — अध्यक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) — सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3. निदेशक (प्रशासन) — सदस्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं.08-01/2014-पुस्तकालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R. 229(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Archeological Survey of India (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 1994 and the Archeological Survey of India (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, in so far as it relates to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Library and Information Assistant and Assistant Library and Information Officer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India (Library and Information Assistant and Assistant Library & Information Officer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.—The number of the said posts, their classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. ---The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the above said Schedule.

4. Disqualification. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party of the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. --- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Library and Information Assistant	26 *(2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Service, Group B, Non Gazetted, Non-Ministerial	Level – 6	Not applicable	Not exceeding 30 years Note 1: (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panji sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a Recognized University or Institute;</p> <p>(ii) Two years of professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research or Educational Institutions.</p> <p>Desirable:</p> <p>Diploma in Computer Application from a Recognized University or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	Not applicable	2 years	<p>By direct recruitment</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level-5 in the Pay Matrix in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under Column 7.</p> <p>Note: (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
(11)	(12)	(13)	
Not applicable	<p>Group B Departmental Confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India — Chairman 2. Joint Director General (Archaeology) Archaeological Survey of India — Member 3. Director (Administration) Archaeological Survey of India — Member 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Library and Information Officer	10 *(2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group B Gazetted, Non-Ministerial	Level-7	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Library and Information Assistant in Level 6 in Pay Matrix with five years regular service in the Grade and successfully completed training of four weeks in the field of Library Science.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director — Chairman General(Administration) Archeological Survey of India 2. Joint Director — Member General (Archaeology) Archaeological Survey of India 3. Director (Administration) — Member Archaeological Survey of India 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F No. 08/01/2014-Lib(ASI)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)